

## कृषि एवं पशु विज्ञान प्रदर्शनी

कृषि विज्ञान केंद्र एवं आईवीआरआई बरेली द्वारा बहेड़ी के रामलीला मैदान पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय वृहद् पशु आरोग्य शिविर/मेला में कृषि एवं पशु विज्ञान प्रदर्शनी का स्टाल लगाया गया । यह मेला पशु पालन एवं चिकित्सा विभाग बरेली जनपद द्वारा आयोजित किया गया था । इस मेले में विभिन्न कृषि पशुपालन तकनीकियों के



स्टाल लगाये तथा कृषको एवं पशुपालको के लिए किसान गोष्ठी, किसान प्रश्नोत्तरी, पशु स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन किया गया । मेले का उद्घाटन बहेड़ी क्षेत्र के विधायक माननीय श्री छत्रपाल सिंह जी ने किया । इस अवसर पर श्री छत्रपाल सिंह जी ने सरकार द्वारा पशुपालको व सीमान्त किसानो के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ के बारे बताया एवं आवाहन किया की पशुपालन खेती की रीढ़ है, इसलिए वैज्ञानिक विधिओ से का पशुपालन कर किसान अपनी आय में वृद्धि करे । आईसीएआर - सीएआरआई के निदेशक डॉक्टर ए. बी. मंडल ने कुक्कुट पालन व्यवसाय के बारे में बताते हुए कहा कि इससे न केवल आय में वृद्धि होती है वरन उत्तम कोटि का प्रोटीन भी प्राप्त होता है । डॉक्टर मंडल ने किसान भाईयों को अतिरिक्त प्रोटीन की आपूर्ति के लिये कुक्कुट पालन करने का सुझाव दिया । आईवीआरआई के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अभिजीत पवाडे ने पशुओ में विभिन्न रोगों के रोकथाम की जानकारी दी एवं पशु चिकित्सा कैम्प में भी भाग लिया । मुख्य अतिथि माननीय श्री छत्रपाल सिंह जी के स्टाल भ्रमण के दौरान डॉक्टर अभिजीत पवाडे व श्री रंजीत सिंह ने केवीके व आईवीआरआई द्वारा प्रदर्शित विभिन्न तकनीकियों के बारे बताया । केवीके के स्टाल पर 130 कृषको ने विभिन्न फसलो की उत्पादन तकनीक के साथ पशुओ को यूरिया मोलासेस लड्डू, मिनरल ब्लाक, मिनरल मिक्चर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की । कृषको को विभिन्न तकनीकियों के लीफ्लेट्स व फोल्डर भी वितरित किये गए ।

